

प्रेस नोट दिनांक-06-07-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अजय जायसवाल चौकी प्रभारी शिवरामपुर द्वारा अभियुक्त दादूराम पटेल पुत्र छैलबिहारी निवासी मछरिहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरमदगी:-

25 क्वार्टर देशी शराब

बरमदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री अजय जायसवाल चौकी प्रभारी शिवरामपुर
2. आरक्षी कमलेश
- 3.. आरक्षी उमेन्द्र

(2). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 2030 थाना कोतवाली कर्वी अंतर्गत दिनांक 05/07/2021 को समय 21:12 बजे इवेंट संख्या 15582 द्वारा घटनास्थल इलाहाबाद रोड pnb बैंक के सामने थाना कोतवाली कर्वी से कॉलर ज्ञान चंद्र (मोबाइल नंबर 9721359232) ने सूचना दी कि ट्रक वाले ने रिक्शा वाले को टक्कर मार दी है दोनों गाड़िया मौके पर है रिक्शा वाला घायल है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक ट्रक वाला एक रिक्शा वाले को टक्कर मार कर भाग गया है जिससे रिक्शा वाला घायल हो गया है। पीआरवी कर्मियों ने तत्काल घायल रिक्शा वाले को पीआरवी वाहन द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायल के परिजन भी मौके पर आ गये है।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर - hc शहीद खां

सब कमांडर - c जगदीश प्रसाद

पायलट - hg जितेंद्र प्रसाद

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु चित्रकूट पुलिस द्वारा जंगलों में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक-06.07.2021 को श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी के नेतृत्व में पुलिस टीम एवं पीएसी टीम द्वारा चपेड़ा, खादर, करका भाटा के जंगलों में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।

(4). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 06.07.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम चिल्लीराकस में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम भेड़ा, मारकुण्डी रेलवे स्टेशन एवं बाजार में भ्रमण कर, महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, भैरोपागा एवं कर्वी शहर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में बाजार रोड एवं बस स्टैण्ड मऊ में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में शिवनगर, सुभाषनगर, बाजार एवं डॉटपुल के पास भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा रेलवे स्टेशन बहिलपुरवा एवं ग्राम बहिलपुरवा में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।